

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली
हौज खास, नई दिल्ली -110016
(औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई)
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI
Hauz Khas, New Delhi-110016
(Industrial Research & Development Unit)

No. IITD/IRD/RP03439G/122895

Dated:18 /06/2019

Advertisement No.: IITD/IRD/113/2019

Applications from Indian nationals are invited for Project Appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा.

Title of the Project	Design of Anti-Mine Boots (AMBs) using Finite Element Simulations with Human Body Model (HBM) (JATC Sub Project # 13 under MI01618) (RP03439G)	
Funding Agency	DRDO, Ministry of Defence	
Name of the Project Investigator	Prof. Devendra Kumar Dubey	
Deptt./Centre	Department of Mechanical Engineering	
Duration of the Project	Upto:05/10/2022	
Post (s)	Consolidated fellowship / Pay-slab	Qualifications
Sr. Project Scientist (1)	Rs.40,000-44,000-48,000-52,000-56,000-60,000-64,000/-p.m. plus HRA @ 20%	Ph.D. in Mechanical Engineering discipline with minimum 65% marks. Fundamental knowledge about structural mechanics and materials mechanics, and research experience in Finite Element modeling and simulations, with working knowledge of LS-Dyna, ANSYS and Hypermesh is required. Experience in blast and impact mechanics modeling is desirable.
Project Scientist (1)	Rs.32,000-35,200-38,400- 41,600-44,800-48,000-51,200/- p.m. plus HRA @ 20%	M.Tech. in Mechanical Engineering discipline with minimum 65% marks, with working experience of Finite Element modeling using LS-Dyna / ANSYS, Hypermesh software at advanced level is required OR B.Tech with minimum 65% marks and 2 years working experience (non-teaching) in Finite Element modeling using LS-Dyna/ ANSYS, Hypermesh softwre is required.

The post may be downgraded as per discretion of the Selection Committee if none of the candidate is found suitable for the post.

The candidates who are interested to apply for the above post should download **Form No. IRD/REC-4** from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. **by e-mail with advertisement No. on the subject line to Prof. Devendra Kumar Dubey at his email id: dubeyiitd@gmail.com** IIT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) alongwith the interview details. Only short-listed candidates will be informed. In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate may contact **Prof. Devendra Kumar Dubey at his email id: dubeyiitd@gmail.com** 5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के चयन के मामले में उसका वेतन वर्तमान आईआरडी मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा।

The last date for submitting the completed applications by e-mail is 05/07/2019 by 5.00 p.m. The shortlisted candidates who are called for interview should bring original certificates (both professional and academic) with a recent passport size photograph at the time of interview.

(रमा शर्मा)

सहायक कुल्सचिव, आईआरडी

वितरण

- Head of the Deptt./Centres/Units : It is requested that the contents of the Above Advt. be brought to the notice of the staff working in your Deptt./Centre/Unit
- Webmaster, IRD : To put advertisement at IITD website.
- Notice Boards
- Advertisement file
- Prof.Devendra Kumar Dubey, PI, Department of Mechanical Engineering
- Copy to Chairperson, DRC/CRC